

## अधिसूचना



### आजादी 70- याद करो कुरबानी स्वतंत्रता पखवाड़ा समारोह

15 अगस्त, 2016 को भारत आजादी के 70 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सभी संबद्ध विद्यालयों द्वारा 9 अगस्त 2016 से 23 अगस्त, 2016 तक आजादी 70-याद करो कुरबानी-स्वतंत्रता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके दौरान विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना भरने हेतु विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यिक गतिविधियों का उचित रूप से आयोजन किया जाएगा।

**सभी विद्यालय प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग लें।**

#### निर्देश :

1. पखवाड़े के दौरान आयोजित समारोहों की दिन प्रतिदिन की संक्षिप्त रिपोर्ट/चित्रों सहित:

- [azadi70@gov.in](mailto:azadi70@gov.in) पर ई-मेल करें
- वेबसाइट [www.mhrd.gov.in](http://www.mhrd.gov.in), 'फेसबुक' पेज: आजादी 70-और +91 8447952686 पर व्हाट्सएप कर अपलोड करें।  
**प्रतिवेदन और आवश्यक सूचना लिंक में दिए गए प्रोफार्मा में 31 अगस्त 2016 को या उससे पूर्व प्रेषित की जानी है:**

<http://49.50.70.100/online/onlineasp/AZADI70/Default2.aspx>

2. क. प्रत्येक प्राथमिक/प्रारंभिक/अपर प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय कम से कम एक गतिविधि का आयोजन करें।

ख. प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय न्यूनतम दो गतिविधियों का आयोजन करें।

#### सुझाई गई गतिविधियाँ:

- i. पखवाड़े भर आयोजित समारोहों के अंतिम दिवस मंगलवार 23 अगस्त, 2016 को 11:00 बजे सभी विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान को गाया जाना।
- ii. सीमा चौकियों पर तैनात जवानों के लिए स्वागत कार्ड को तैयार करना और रंग भरना। इन्हें जवानों को भेजने के लिए नजदीकी सैनिक पोस्ट ऑफिस में भेजा जाना है।
- iii. व्यापक रूप से वृक्षारोपण अभियान जो कि विद्यार्थियों के मन में धारणीय विकास के विचार को बिठा सके।
- iv. विद्यार्थियों को 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन और स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ-लेखकों, विद्वान और सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त या सेवारत व्यक्तियों को आमंत्रित करें। [केन्द्र बिन्दु राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र हो सकता है]
- v. चित्रकला प्रतियोगिता
- vi. वक्तव्यकला प्रतियोगिता
- vii. स्वतंत्रता दौड़
- viii. निबंध लेखन प्रतियोगिता
- ix. भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन विषय के रूप में एक प्रहसन/नाट्य का मंचन
- x. नारा लेखन प्रतियोगिता
- xi. देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता

विद्यालय पखवाड़े के समारोहों के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट (50 से 100 शब्दों में) 2 से 3 स्पष्ट शीर्षक के चित्रों सहित [cenbosec01@gmail.com](mailto:cenbosec01@gmail.com) पर भेज सकते हैं।

किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए पी राजेश्वरी, शिक्षा अधिकारी (शै.) [rajeswary.cbse@gmail.com](mailto:rajeswary.cbse@gmail.com) को लिखें।

हस्ताक्षरित

सुगंध शर्मा

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)